



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

सितंबर 26, 2025

संख्या 39

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तिyaं*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	सितंबर 20	सितंबर 12	सितंबर 19	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3455957	3777219	3761730	-15488	305773
1.1 संचलन में नोट	3455943	3777204	3761714	-15490	305771
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	15	16	1	2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	100	101	0	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	956255	909536	884937	-24599	-71318
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7923	7506	7605	99	-318
2.6 अन्य बैंक	54798	49920	50174	254	-4624
2.7 अन्य	765028	777566	891522	113956	126494
3 अन्य देयताएं	1965094	2495021	2482467	-12554	517373
कुल देयताएं / आस्तिyaं	7205197	8016911	8078580	61668	873383
1 विदेशी मुद्रा आस्तिyaं	5097051	5212755	5194363	-18392	97312
2 सोना	531634	815903	817376	1474	285742
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1313609	1770919	1772839	1920	459230
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	26447	29150	32445	3295	5998
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	51223	1184	57401	56217	6178
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	170054	161154	177288	16134	7234
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तिyaं	13117	23782	24803	1021	11686

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकनकी वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	सितंबर 19, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6189683	702570	-16326	-396	477542	34244	403977	10274
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तिyaं#	5163937	586150	-18411	-864	313103	18593	102023	-19536
1.2 स्वर्ण	817376	92779	1474	360	149214	14603	285743	29166
1.3 विशेष आहरण अधिकार	166321	18879	583	105	11032	710	11380	339
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42049	4762	27	2	4194	338	4831	304

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकनकी वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

सितंबर 19, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 904057 करोड़	2025													
	सितंबर 06	सितंबर 07	सितंबर 08	सितंबर 09	सितंबर 10	सितंबर 11	सितंबर 12	सितंबर 13	सितंबर 14	सितंबर 15	सितंबर 16	सितंबर 17	सितंबर 18	सितंबर 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	956361	954345	928862	906433	896278	889531	916200	863337	858537	858098	822001	822015	819471	891811
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	105.8	105.6	102.7	100.3	99.1	98.4	101.3	101.4	100.8	100.7	96.4	96.4	96.3	98.6

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	सितंबर 05, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	322143	-24786	3645	12729	49389	24027
1.2 बैंकों से उधार	96817	-3566	-53563	-15159	-59272	-32049
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	28047	3548	-48933	-1869	-45891	4528
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23669753	165219	1075089	1089152	2161619	2119438
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.7	5.3	4.8	11.1	9.8
2.1.1 मांग	2892107	2712	13390	194058	258064	434863
2.1.2 मीयादी	20777647	162507	1061699	895095	1903555	1684575
2.2 उधारियां	816469	-45940	65730	-98779	-2244	-27203
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1115663	82338	114919	54031	179174	63316
3 रिज़र्व बैंक से उधार	3936	2118	-214976	-307530	-20446	-3804
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1010707	-6047	57953	46418	-12961	-68162
4.1 उपलब्ध नकदी	84106	252	589	2231	-9262	-5917
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	926601	-6299	57364	44186	-3700	-62245
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	246287	-23982	6763	30486	19908	41197
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	25499	7419	714	-339	-12464	12429
5.3 बैंकों को अग्रिम	29088	766	-4927	-10416	-3923	-14354
5.4 अन्य आस्तियां	66159	10616	-44718	-1194	-21668	-4547
6 निवेश	6819997	63031	278853	122069	402550	434586
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	4.6	1.8	6.7	6.8
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6819538	63031	279267	122240	402790	434662
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	459	0	-414	-171	-240	-76
7 बैंक ऋण	18800761	153919	614438	556788	2007433	1754159
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	3.7	3.1	13.3	10.3
7 क.1 खाद्य ऋण	45580	-4876	-1577	9049	2432	24077
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18755180	158794	616015	547739	2005001	1730082
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18457267	149819	602698	547415	1953791	1720266
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	78734	934	7240	3772	23034	11027
7 ख.3 भुनाए गए	230152	2809	7279	9092	33906	25515
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13045	212	-865	-2077	-1167	-2502
7 ख.5 भुनाए गए	21562	145	-1914	-1414	-2131	-147

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	सितंबर 20	अगस्त 22	अगस्त 29	सितंबर 05	सितंबर 12	सितंबर 19
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	3.75	3.75
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.85	4.33	..	4.27	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	79.63	79.33	..	79.43	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	67.24	43.60	..	51.12	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.77	28.75	..	28.81	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	28.71	6.39	..	11.21	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/8.15	7.80/8.15	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिता औसत)	6.64	5.47	5.45	5.38	5.36	5.48
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	..	5.48	5.51	5.51	5.51	5.50
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	..	5.58	5.60	5.62	5.62	5.60
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	..	5.60	5.64	5.67	5.67	5.63
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.80	6.61	6.67	6.59	6.57	6.58
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.49	87.44	87.85	88.32	88.28	88.31
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	93.29	101.34	102.47	103.08	103.60	103.93
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.66	1.74	1.76	1.78	1.85	2.04
3-माह	1.78	1.87	1.80	1.83	1.97	2.06
6-माह	2.03	1.96	1.97	2.01	2.13	2.18

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	सितंबर 05	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28476856	168355	0.6	1070986	4.3	1190267	4.4	2384060	10.1	2466010	9.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3718989	3253	0.1	-6314	-0.2	88238	2.4	194731	6.1	315027	9.3
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3036151	3635	0.1	13094	0.5	196128	6.9	260788	11.1	436169	16.8
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21611386	160782	0.7	1065132	5.7	908878	4.4	1906732	10.6	1698094	8.5
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	110330	685	0.6	-926	-1.0	-2976	-2.6	21808	30.4	16721	17.9
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8747072	161128	1.9	250444	3.3	236246	2.8	324175	4.3	893056	11.4
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1607508	95801		-28181		99402		-79936		442476	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7139564	65327	0.9	278625	4.3	136844	2.0	404111	6.4	450581	6.7
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	19600293	150785	0.8	608026	3.5	532165	2.8	2037902	12.9	1789436	10.0
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	9833	-3236		-5553		-28413		4432		980	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	19590460	154021	0.8	613579	3.6	560577	2.9	2033470	12.9	1788456	10.0
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6582594	114021	1.8	426221	7.7	434066	7.1	989528	19.8	588869	9.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38057	0	0	1163	3.5	1426	3.9	3194	10.2	3463	10.0
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6491160	257580	4.1	214868	3.9	13636	0.2	970740	20.6	808814	14.2
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2431271	142360	6.2	151905	8.5	283844	13.2	421666	27.7	489232	25.2

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	सितंबर 19	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4859372	-34567	-0.7	-27848	-0.6	30129	0.6	207678	4.7	255774	5.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3800152	-15490	-0.4	-20924	-0.6	75705	2.0	188675	5.7	309615	8.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	942717	-24246	-2.5	-6473	-0.6	-48772	-4.9	-2341	-0.2	-76259	-7.5
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	116503	5168	4.6	-451	-0.5	3196	2.8	21344	29.3	22418	23.8
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1324495	-242312		-272100		-183610		-89461		403383	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1292093	-245607		-291947		-183367		-102428		397384	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-51119	211121		22118		67897		-150450		-27090	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-66788	205293		25935		90473		-155921		-32170	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6010871	-16871	-0.3	388167	7.4	459924	8.3	893941	18.9	381621	6.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38438			1163	3.5	1806	4.9	3194	10.2	3844	11.1
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2463314	-13495	-0.5	167196	9.3	315888	14.7	449547	29.8	505985	25.9

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
सितंबर 15, 2025	-	-	-	-	1282	199673	718	-	-	-197673
सितंबर 16, 2025	-	-	585	-	18172	98460	649	-	-	-79054
सितंबर 17, 2025	-	-	-	-	1507	74961	-	-	-	-73454
सितंबर 18, 2025	-	-	25006	-	2849	111533	1195	-	-	-82483
सितंबर 19, 2025	-	-	60357	-	310	124189	-	-	-	-63522
सितंबर 20, 2025	-	-	-	-	438	77708	-	-	-	-77270
सितंबर 21, 2025	-	-	-	-	230	73485	-	-	-	-73255

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जुलाई	अगस्त	जुलाई	अगस्त	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	193.0	193.0	196.1	197.0	0.5	2.6	2.1
1.1 ग्रामीण	195.3	195.4	197.6	198.7	0.6	2.5	1.7
1.2 शहरी	190.3	190.3	194.3	195.0	0.4	2.7	2.5
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	142.7	142.6	146.5	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	155.3	154.4	154.4	155.2	0.5	0.3	0.5
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	197.8	195.1	188.0	191.0	1.6	3.0	-2.1
3.2 ईंधन और बिजली	148.2	148.3	144.6	143.6	-0.7	-5.6	-3.2
3.3 विनिर्मित उत्पाद	141.7	141.3	144.6	144.9	0.2	0.2	2.5

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
सितंबर 05, 2025	495294	41965	5.69 - 6.50
सितंबर 19, 2025	501817	71730	5.49 - 6.82

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अगस्त 31, 2025	543870	60808	5.72 - 13.83
सितंबर 15, 2025	526704	99422	5.72 - 11.97

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	सितंबर 20, 2024	सितंबर 12, 2025	सितंबर 19, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	11343	31808	34205
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	6154	2775	8643
3 त्रिपक्षीय रेपो	605817	681101	857666
4 बाजार रेपो	486193	623329	811438
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	2839	11061	14021

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

सितंबर 19, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	11828	16120	77082	215982
182-दिवसीय	56680	37969	17930	186830
364-दिवसीय	72583	72827	48041	353741
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (सितंबर 19, 2025 तक)	2024-25 (सितंबर 20, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (सितंबर 19, 2025 तक)	2024-25 (सितंबर 20, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	727000	674697	1400697	591914	479151	1039275
2. राज्य सरकारें	441692	351237	1073310	308264	240583	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।